

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



सत्यमेव जयते

असाधारण

EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 306] दिल्ली, रविवार, नवम्बर 3, 2019/कार्तिक 12, 1941 [रा.रा.क्षे.दि. सं. 280  
No. 306] DELHI, SUNDAY, NOVEMBER 3, 2019/KARTIKA 12, 1941 [N.C.T.D. No. 280

भाग—IV

PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार

GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

परिवहन विभाग

शुद्धिपत्र

दिल्ली, 2 नवम्बर, 2019

सं.फा. 23(1549)/सीएपी/परि./पीसीडी/2019/78731—दिनांक 01/11/2019 की अधिसूचना संख्या फा. 23(1549)/सीएपी/परि./पीसीडी/2019/1579/78617 के हिन्दी संस्करण के पैरा (i) में प्रयुक्त शब्द "अप्रैल" को "नवम्बर" पढ़ा जाए।

वी. के. सरास्वत, प्रदूषण नियंत्रक अधिकारी (परिवहन)

TRANSPORT DEPARTMENT

CORRIGENDUM

Delhi, the 2nd November, 2019

No. 23(1549)/CAP/TPT/PCD/2019/78731.—In the Hindi version of the notification number 23(1549)/CAP/TPT/PCD/2019/1579/78617 dated 01.11.2019 in para (i), the word mentioned "अप्रैल" shall be read as "नवम्बर".

V.K. SARASWAT, Pollution Control Officer (Transport)